

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद मुरादाबाद



दिनांक- 29.10.2022

1-तीन तलाक देने का आरोपी गिरफ्तार थाना कांठ:-

अवगत कराना है कि दिनांक 24.07.2022 को वादिनी निवासी थाना कांठ क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौज, मारपीट कर प्रताड़ित करने व वादिनी के पति द्वारा तीन तलाक देने के सम्बन्ध में थाना कांठ पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना कांठ पर मु0अ0सं0 282/2022 धारा 498ए/323/504 भादवि व 3/4 मुस्लिम विवाह अधि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 29.10.2022 को उ0नि0 श्री मनीष सिरोही थाना कांठ द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त मेहरबान पुत्र बब्बू खाँ नि0 ग्राम बरवाला मजरा सिद्दीकी कॉलोनी थाना कांठ, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

2-चोरी के आशय से घर में घुसने व जान से मारने की नियत से फायर करते हुये भाग जाने का एक आरोपी गिरफ्तार थाना भोजपुर:-

अवगत कराना है कि दिनांक 15.09.2022 को श्री नेतराम सिंह पुत्र रामचरन सिंह नि0 ग्राम मिलक अमावती थाना भोजपुर, मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा चोरी करने के लिए घर में घुस जाने तथा मौके पर एक अभियुक्त के पकड़े जाने व अन्य अभियुक्तगण तमन्चे से फायर करते हुए भाग जाने के सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0 309/2022 धारा 382/380/457/307/34 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 29.10.2022 को उ0नि0 श्री महेश चन्द व उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना भोजपुर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त रामप्रसाद पुत्र सीताराम नि0 ग्राम गख्वरपुर थाना डिलारी, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

3- सट्टे की खाईबाड़ी करते हुये 01 युवक गिरफ्तार, थाना भोजपुर:-

अवगत कराना है कि दिनांक 28-10-2022 की रात्रि को उ0नि0 श्री अफजाल अहमद थाना भोजपुर द्वारा मय हमराही पुलिसबल के राजीव उर्फ सनी पुत्र विपिन उर्फ राजू निवासी मौहल्ला झादेवाला कस्बा व थाना भोजपुर, मुरादाबाद को सट्टा पर्ची, पैन, पैड व छोटी टॉर्च व 5040 रुपये नकद सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0 370/22 धारा 13 जी एक्ट (सट्टा) पंजीकृत किया गया।

4- ई-कचरा सहित 01 आरोपी गिरफ्तार, थाना भोजपुर:-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 29.10.2022 को उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना भोजपुर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त मुन्त्याज पुत्र अब्दुल करीम नि0 मौहल्ला नई बस्ती बगियावाला कस्बा व थाना भोजपुर, मुरादाबाद को 16 कट्टो में करीब 480 किलो ग्राम प्रतिबंधित ई0 कचरा को जलाते हुये गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0- 371/2022 धारा 269/270 भादवि व 3/8 ई0 कूड़ा कचरा अधि0 पंजीकृत किया गया।